



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अगस्त 19—अगस्त 25, 2012, शनिवार/श्रावण 28—भाद्र 3, 1934  
No. 15] NEW DELHI, AUGUST 19—AUGUST 25, 2012, SATURDAY/SHRAVANA 28—BHADRA 3, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2012

आ.अ. 25.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि असम राज्य में विधान सभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2011 में नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट, निर्वाचन क्षेत्र से, स्तम्भ 4 के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ 5 में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस/सूचना दिए जाने के बावजूद उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन (यदि कोई हों), पर विचार करने के पश्चात् भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निरहित घोषित करता है :-

## सारणी

क्रम सं.	निर्वाचनों का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	असम राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2011	4-करीमगंज दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	<p>(1) श्री अब्दुल रहीम खान, गांव-टीकरपारा, डाक-दत्ताग्राम, थाना-नीलम बाजार, जिला-करीमगंज, असम</p> <p>(2) श्री अब्दुल मोन्नान, गांव-गुलालकंदी, डाक-बाजारघाट, थाना-रतबारी, जिला-करीमगंज, असम</p> <p>(3) श्री अब्दुल मलिक, गांव-एटनगर, डाक-कनाईबाजार, थाना-पाथरकांडी, जिला-करीमगंज, असम</p> <p>(4) श्री अब्दुल हमीद, गांव-इस्लामबस्ती, डाक-इरालीगूल, थाना-पत्थरकांडी, जिला-करीमगंज, असम</p> <p>(5) श्री बदरूल इस्लाम, गांव-भंगीरखाला, डाक व थाना-नीलम बाजार, जिला-करीमगंज, असम</p> <p>(6) श्री बप्पन नाथ, गांव-बरूआला, डाक-बरूआला बाजार, थाना-आर.के. नगर, जिला-करीमगंज, असम</p> <p>(7) श्री महबूब अहमद खान, गांव-टोकीपुर, डाक-कायस्थग्राम, थाना-नीलमबाजार, जिला-करीमगंज, असम</p> <p>(8) श्री रणजीत नामसुद्र, गांव-सुनाईपार, डाक-बाजारघाट, थाना-रतबारी, जिला-करीमगंज, असम</p> <p>(9) श्री हिफजुर रहमान, गांव-दक्षिण कनकपुर, डाक-कायस्थग्राम, थाना-नीलमबाजार, जिला-करीमगंज, असम</p>	निर्वाचन व्ययों का लेखा बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	असम राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2011	10-सोनाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री द्विजमणि सिन्हा, गांव-गांधीनगर, भाग-V, डाक-बेकीरपार, थाना-धोलाई, जिला-कछार, असम	विधि के अनुसार लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे।
3.	असम राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2011	14-बड़खोला बड़भुइया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री हिफजुर रहमान बड़भुइया, गांव-कृष्णपुर, डाक-कृष्णपुर, थाना-सिलचर, जिला-कछार, असम	विधि के अनुसार लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे।
4.	असम राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2011	62-बरमा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री फुलेन बोरो, गांव-बतासरा, डाक-खरूवा, थाना-बरमा, डाक-गोलाघाट, जिला-बाकसा (बी.टी.ए.डी.), असम	निर्वाचन व्ययों का लेखा बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया है।
5.	असम राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2011	109-बिहपुरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	श्री किशोर देवरी, गांव व डाक-बोरदेवरीगांव, थाना-नारायणपुर, जिला-लखिमपुर, असम	निर्वाचन व्ययों का लेखा बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया है।

[सं. 76/असम-वि.स./2011]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****ORDER**

New Delhi, the 7th August, 2012

**O. N. 25.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2011, in the Assam State held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order:

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reasons for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly 2011 from the state of Assam.	4- Karimganj South LAC	(1) Shri Abdul Rahim Khan, Vill. Tikarpara, P.O. Duttagram, P.S. Nilambazar, Distt., Karimganj, Assam.	Failed to lodge accounts of election expenses at all.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly 2011 from the state of Assam.	4- Karimganj South LAC	<p>(2) Shri Abdul Monnan, Vill.: Gulalkandi, P.O.: Bazarghat, P.S.: Ratabari, Dist., Karimganj, Assam.</p> <p>(3) Shri Abdul Malik, Vill.: Atanagar, P.O. Kanaibazar, P.S.: Patharkandi, Dist.: Karimganj, Assam.</p> <p>(4) Shri Abdul Hamid, Vill.: Islambasti, P.O. Eraligool, P. S., Patharkandi, Dist., Karimganj, Assam.</p> <p>(5) Shri Badrul Islam, Vill.: Bhagirkhala P.O. &amp; P.S.: Nilambazar, Dist.: karimganj, Assam.</p> <p>(6) Shri Bappan Nath, Vill.: Baruala, P.O.: Baruala Bazar, P.S.: R.K. Nagar, Dist.: Karimganj, Assam.</p> <p>(7) Shri Mahbub Ahmed Khan, Vill.: Tokipur, P.O.: Kayasthagram, P.S.: Nilambazar, Dist., Karimganj, Assam.</p> <p>(8) Shri Ranjit Namasudra, Vill.: Sunaipar, P.O.: Bazarghat, P. S.: Ratabari, Dist., Karimganj, Assam.</p> <p>(9) Shri Hifjur Rahman, Vill.: South Kanakpur, P.O. Kayasthagram, P.S.: Nilambazar, Dist., Karimganj, Assam.</p>	Failed to lodge accounts of election expenses at all.
2.	—do—	10-Sonai LAC	<p>Shri Dwijamani Sinha, Vill. Gandhinagar, Pt-V, P.O. Bekirpar, P.S. Dholai, Dist. Cachar, Assam.</p> <p>(1) Shri Hifjur Rahman Barbhuiya, Vill. Krishnapur, P.O.</p>	Failed to lodge accounts of election expenses in the manner as required by law.
				—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Krishnapur, P.S. Silchar, Dist. Cachar, Assam.	
4.	General Election to the Legislative Assembly 2011 from the state of Assam.	62-Barama (ST) LAC	Shri Phulen Boro, Vill : Batasara, P.O.-Kharua, P.S.-Barama, P.O. Golaghat, Dist.-Baksa (BTAD), Assam.	Failed to lodge accounts of election expenses at all.
5.	—do—	109-Bihpuria LAC	Shri Kishore Deori, Vill. & P.O.-Bordeori Gaon, P.S.-Narayanpur, Dist. - Lakhimpur, Assam.	—do—

[No. 76/AS-LA/2011]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2012

**आ.अ. 26.**—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि अरुणाचल राज्य से विधान सभा के लिए 2009 में हुए साधारण निर्वाचन में नीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट, निर्वाचन क्षेत्र से, स्तम्भ 4 में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों एवं आदेशों के अंतर्गत यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है, या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, (यदि कोई हो) पर विचार करने के पश्चात् भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

**सारणी**

क्रम सं.	निर्वाचनों का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हिता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अरुणाचल राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2009	48-लेकंग (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र	(1) श्री कोरूणा मोरांग, गांव-मिरसाम, डाकघर/थाना-पासीघाट, जिला-पूर्वी सिआंग, अरुणाचल प्रदेश	निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि के अनुसार दाखिल करने में असमर्थ रहे।

[सं. 76/अरुणाचल प्रदेश-वि.स./2009]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, सचिव

2981 8/7/12-2

**ORDER**

New Delhi, the 7th August, 2012

**O.N. 26.**—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column 4 of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly 2009, in the Arunachal State held from the constituency specified in column 3 against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

**TABLE**

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address Contesting Candidate	Reason for Disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly 2009 from the state of Arunachal Pradesh	48-Lekang (ST) AC	(1) Shri Koruna Morang, Vill. : Mirsam, P.O./P.S. : Pasighat, Dist. : East Siang, Arunachal Pradesh	Failed to lodge accounts of election expenses in the manner as required by law.

[No. 76/ARUN-LA/2009]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2012

**आ.अ. 27.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ओडिशा राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से एतद्द्वारा, डा. (श्रीमती) मोना शर्मा, आई.ए.एस. (आर आर : 89), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए ओडिशा राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. डा. (श्रीमती) मोना शर्मा, आई.ए.एस., ओडिशा सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगी या धारण करना समाप्त कर देंगी, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रही थीं।

3. डा. (श्रीमती) मोना शर्मा, आई.ए.एस., मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा के रूप में कार्य करते हुए ओडिशा सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगी सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/ओ.आर./2012-नि.यो.अ.]

आदेश से,

के. अजय कुमार, प्रधान सचिव

New Delhi, the 21st August, 2012

**O.N. 27.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Odisha, hereby nominates Dr. (Mrs.) Mona Sharma, IAS (RR:1989) as the Chief Electoral Officer for the State of Odisha with effect from the date she takes over charge and until further orders.

2. Dr. (Mrs.) Mona Sharma, IAS shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Odisha, which she may be holding before such assumption of office.

3. Dr. (Mrs.) Mona Sharma, IAS while functioning as the Chief Electoral Officer, Odisha shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Odisha except that she should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/OR/2012-EPS]

By Order,

K. AJAY KUMAR, Principal Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2012

**आ.अ. 28.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग पुडुचेरी प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा, श्री टी. श्रीकान्त, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू. : 2004), को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री टी. श्रीकान्त, आई.ए.एस., पुडुचेरी सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री टी. श्रीकान्त, आई.ए.एस., मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुडुचेरी के रूप में कार्य करते हुए पुडुचेरी सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/पुडु/2010-नि.यो.अ.]

आदेश से,

के. अजय कुमार, प्रधान सचिव

New Delhi, the 21st August, 2012

**O.N. 28.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Puducherry, hereby nominates Shri T. Sreekant, IAS (AGMUT:2004) as the Chief Electoral Officer for the State of Puducherry with effect from the date he takes over charge.

2. Shri T. Sreekant, IAS shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Puducherry, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri T. Sreekant, IAS while functioning as the Chief Electoral Officer, Puducherry shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Puducherry except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/PUDU/2010-EPS]

By Order,

K. AJAY KUMAR, Principal Secy.